

भारत का राजपत्र **The Gazette of India**

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 219] नई दिल्ली, बुध्स्पतिवार, दिसम्बर 12, 1968/अग्राहायन 21, 1890

No. 219] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 12, 1968/AGRAHAYANA 21, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue & Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 12th December 1968

G.S.R. 2180.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance), G.S.R. 1173, dated the 19th June, 1968:—

In the Table annexed to the said notification, in column 2 headed "Description of articles", against Sl. No. 4, for item No. (ii) the following item shall be substituted, namely:—

"(ii) Jute manufactures whose F.A.S. value is in excess of the F.A.S. value of Hessian of 40" x 10 ozs. by not less than Rs. 1,500 per tonne, excluding carpet backing, Jute webbing, Jute canvas, Jute tarpaulin cloth and manufactures thereof.

[No. 163/F. No. 6/26/68-Cus.I.]

M. G. ABROL, Jt. Secy.

(625)

